

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला पन्ना में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

### जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

संज्ञ क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं विभाग का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अनिल चौपड़ा	उपमण्डलाधिकारी, वन मण्डल दक्षिण, पन्ना	कार्यपालिक
2	श्री डी. डी. तिवारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पन्ना	कार्यपालिक
3	श्री के. के. मिश्रा	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
4	श्री आई. पी. एस. बुन्देला	सहायक यंत्री, लोक निर्माण यंत्री, पन्ना	कार्यपालिक

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री धीरेन्द्र खरे	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
6	श्री प्रभाकर टिकरिया	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
7	श्री एन. पी. सिंह	सचिव, कृषि उपज मण्डी, पन्ना	कार्यपालिक
8	श्री आर. के. सोनी	उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय	कार्यपालिक
9	श्री अश्वनी दुवे	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
10	श्री डी. के. पलरैया	सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री सड़क योजना पन्ना	कार्यपालिक
11	श्री जे. पी. अहिरवार	उपयंत्री, लो. स्वा. यां. पन्ना	कार्यपालिक
12	श्री के. पी. दिनकर	हीरा अधिकारी, पन्ना	कार्यपालिक
13	श्री गोविन्द भूरिया	उपयंत्री, लो. स्वा. यां., पन्ना	कार्यपालिक
14	श्री पी. एल. चन्दपुरिया	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
15	श्री अरूण पटेरिया	अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि. विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
16	श्री सचिन मशीह	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
17	श्री परमलाल अहिरवार	मलेरिया अधिकारी, पन्ना	कार्यपालिक
18	श्री बृजविलास मिश्रा	जिला संयोजक, अ. जा. वि., पन्ना	कार्यपालिक
19	श्री व्ही. के. दीक्षित	व्ही. ए. एस. संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
20	श्री ओ. पी. वैश्य	उपयंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, पन्ना	कार्यपालिक
21	श्री वाय. के. रोहित	सहा. प्रबं., प्रधानमंत्री सड़क योजना, पन्ना	कार्यपालिक
22	श्री एम. सी. घनघोरिया	सहा. यंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, पन्ना	कार्यपालिक
23	श्री ए. पी. रैकवार	उपयंत्री, लो. स्वा. यां. उपखण्ड, पन्ना	कार्यपालिक
24	श्री एस. के. गुप्ता	समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, पन्ना	कार्यपालिक
25	श्री महेश प्रसाद नागिल	समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, पन्ना	कार्यपालिक
26	श्री ए. के. चौधरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्या., पन्ना	कार्यपालिक
27	श्री जी. एल. अहिरवार	अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण कृषि विभाग, पन्ना.	कार्यपालिक
28	श्री प्रकाश धौलखण्डी	जिला कार्यक्रम तेजस्वनी योजना, पन्ना	कार्यपालिक
29	श्री महाराज सिंह	डी. पी. एम. आर. सी. एच. जिला चिकित्सालय, पन्ना.	कार्यपालिक
30	श्री जी. पी. कोरी	सहायक यंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
31	श्री एस. एन. चौरसिया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पन्ना	कार्यपालिक
32	श्री मनेन्द्र पहारिया	जिला समन्वयक, समग्र स्वा. अभियान जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
33	श्री आर. के. अहिरवार	सहा. यंत्री, लो. स्वा. यां., पन्ना	कार्यपालिक
34	श्री एम. आई. कुरेशी	समन्वयक डी. पी. आई. पी. पन्ना	कार्यपालिक
35	श्री प्रबोध पराते	सहायक यंत्री, एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, पन्ना	कार्यपालिक
36	श्री आर. के. जैन	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
37	श्री एल. सी. जैन	सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पवई	कार्यपालिक

(1)	(2)	(3)	(4)
38	श्री यशवन्त कुर्मी	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
39	श्री शरद शुक्ला	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
40	श्री एम. के. रावत	सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पवई	कार्यपालिक
41	श्री एम. पी. पाण्डेय	सहायक यंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
42	श्री डी. मंसूलकर	कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यां. विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
43	श्री डी. के. कलरैया	सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पवई	कार्यपालिक
44	श्री आर. के. मिश्रा	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
45	श्री ए. के. द्विवेदी	सहायक पंजीयक, सहकारिता, पन्ना	कार्यपालिक
46	श्री एस. पी. कोरी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
47	श्री के. सी. अग्रवाल	सहायक पंजीयक, सहकारिता, पन्ना	कार्यपालिक
48	श्री डी. पी. रोहिताश	सहा. यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
49	श्री आर. डी. अग्निहोत्री	उपयंत्री, ग्रा. यां. सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
50	श्री के. एस. कुशवाहा	जिला शिक्षा अधिकारी जिला, पन्ना	कार्यपालिक
51	श्री एम. पी. खरे	सहायक संचालक, उद्यान विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
52	श्री एच. पी. भारतीय	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, पन्ना	कार्यपालिक
53	श्री पी. एस. नेताम	आबकारी अधिकारी, पन्ना	कार्यपालिक
54	श्री के. अहिरवार	सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
55	श्री जी. पी. पटेल	उपसंचालक, कृषि, पन्ना	कार्यपालिक
56	श्री श्याम बिहारी बरसैया	महा प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, पन्ना	कार्यपालिक
57	श्री रतन कुमरे	खाद्य अधिकारी, पन्ना	कार्यपालिक
58	श्री ए. के. त्रिपाठी	उपयंत्री, ग्रा. यां. सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
59	श्री जी. सी. जैन	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
60	श्री के. के. पाण्डे	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	कार्यपालिक
61	डॉ. आर. पी. एस. बुन्देला	व्ही. ए. एस. पशु चिकित्सा सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
62	श्री एम. एल. मिश्रा	प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, पन्ना	कार्यपालिक
63	श्री आर. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, पन्ना	कार्यपालिक
64	श्री डी. के. उमरे	उपयंत्री, प्रधानमंत्री सड़क योजना पवई	कार्यपालिक
65	श्री खूब सिंह	उपयंत्री, प्रधानमंत्री सड़क योजना पवई	कार्यपालिक
66	श्री व्ही. के. गोहिया	उपयंत्री, प्रधानमंत्री सड़क योजना पवई	कार्यपालिक
67	श्री रामबाबू स्वर्णकार,	उपयंत्री, ग्रा. यां. सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
68	श्री लखन लाल धान्या	सहायक संचालक, किसान कल्याण कृषि, पवई	कार्यपालिक
69	श्री पी. सी. अवस्थी	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
70	श्री आर. पी. परते	सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
71	श्री एच. एस. सवसैना	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पन्ना	कार्यपालिक

(1)	(2)	(3)	(4)
72	श्री आर. के. राजपूत	महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पवई	कार्यपालिक
73	श्री एम. के. रिछारिया	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
74	श्री सी. एन. शर्मा	सहायक वन संरक्षक, उत्तर वनमंडल, पन्ना	कार्यपालिक
75	श्री एस. एन. सिंह	सहायक वन संरक्षक, उत्तर वनमंडल, पन्ना	कार्यपालिक
76	श्री एन. एस. बघेल	सहायक वन संरक्षक, उत्तर वनमंडल, पन्ना	कार्यपालिक
77	डॉ. जे. पी. लखेर	व्ही. ए. एस. पशु चिकित्सा सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
78	डॉ. बी. एल. चौरसिया	व्ही. ए. एस. पशु चिकित्सा सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
79	डॉ. जे. आर. लहरिया	व्ही. ए. एस. पशु चिकित्सा सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
80	डॉ. एस. के. शुक्ल	व्ही. ए. एस. पशु चिकित्सा सेवायें, पन्ना	कार्यपालिक
81	श्री एस. के. शुक्ला	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
82	श्री एस. के. खरे	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
83	श्री एम. आई. खान	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
84	श्री एन. पी. तिवारी	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
85	श्री जयसिंह	उपयंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, पन्ना	कार्यपालिक
86	श्री व्ही. पी. अवस्थी	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
87	श्री टी. आर. पटेल	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
88	श्री एस. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी, पन्ना	कार्यपालिक
89	श्री विन्सेंट रहीम	वनमंडलाधिकारी दक्षिण, पन्ना	कार्यपालिक
90	श्री के. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पवई	कार्यपालिक
91	श्री बी. एल. विश्वकर्मा	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	कार्यपालिक
92	श्री रामकुमार अवधिया	सहायक वन संरक्षक दक्षिण वनमंडल, पन्ना	कार्यपालिक
93	श्री के. पी. नामदेव	उपयंत्री, जल संसाधन, पन्ना	कार्यपालिक
94	श्री मनोज कुमार स्वर्णकार	उपयंत्री ग्रा. यां. सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
95	श्री अमोल सिंह यादव	उपयंत्री ग्रा. यां. सेवा, पन्ना	कार्यपालिक
96	श्री जी. एल. जोनवार	उपवनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वन मण्डल, पन्ना	कार्यपालिक